



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1941 (श0)

(सं० पटना 166) पटना, शुक्रवार, 28 फरवरी 2020

सं० वि०(27)-पे०को०-46/2019-175

वित्त विभाग

संकल्प

28 फरवरी 2020

विषय:—नयी अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत विलंबित फंड अंतरणपर भविष्य निधि पर देय दर से ब्याज भुगतान के संबंध में ।

राज्य में दिनांक 01.04.2019 के प्रभाव से CFMS लागू किया गया है । लेकिन इसके क्रियान्वयन के बाद से मार्च 2019 के वेतन से जो अप्रैल में दिया गया, आदिनांक तक NPS राज्यकर्मियों के वेतन से कटौती की गयी राशि का ससमय फंड अंतरण NSDL/AXIS Bank को करने की व्यवस्था TCS द्वारा CFMS में नहीं किया गया । नवम्बर 2019 में फंड अंतरण की व्यवस्था करने के बावजूद भी सॉफ्टवेयर में त्रुटियों के कारण फंड अंतरण में समस्या के कारण फंड अंतरण में विलंब हो रहा है ।

2. उल्लेखनीय है कि विलंब से फंड अंतरण के कारण राज्यकर्मियों का अंशदान विलंब से बाजार में निवेशित होता है, जिससे ब्याज/लाभांश की हानि होती है । इसकी क्षतिपूर्ति हेतु माहवार विलंब से फंड अंतरण की स्थिति में जी०पी०एफ० लेखा में जमा राशि पर देय वार्षिक ब्याज की दर से विलंबित फंड अंतरण का ब्याज भुगतान का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ।

5. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 तक वेतन से कटौती की गयी राशि तथा पेंशन शीर्ष-2071 से की गयी सरकारी अंशदान जो मुख्य शीर्ष-8342 में जमा है, निर्धारित अवधि के बाद विलंब से फंड अंतरण पर कर्मीवार, माहवार तथा राशिवार ब्याज की गणना की जायेगी ।

(ii) ब्याज की गणना मासिक फंड अंतरण की निर्धारित तिथि से वास्तविक फंड अंतरण की तिथि तक की जायेगी ।

(iii) ब्याज का दर जी०पी०एफ० खाता में संचित राशि पर वर्ष 2019-20 में देय ब्याज दर पर संगणित की जायेगी ।

- (iv) ब्याज का भुगतान शीर्ष-‘2049-ब्याज भुगतान’ में बजट उपबंधित राशि से किया जायेगा ।
- (v) ब्याज की गणना हेतु एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जायेगा । वास्तविक वेतन भुगतान एवं अंशदान कटौती तथा फंड अंतरण की तिथि के बीच की अवधि के लिए ब्याज देय होगा ।
- (vi) फंड अंतरण के बाद ब्याज की गणना की जायेगी तथा ब्याज का फंड अंतरण अलग से किया जायेगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव(व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 166-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>